

U.P. Power Transmission Corporation Limited

उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

Office Of The
Chief Engineer (Trans.Planning)
3rd Floor, Shakti Bhawan Extn.
14-Ashok Marg Lucknow-226001
Email ID : setppss@gmail.com
Phone : 0522-2218298



कार्यालय
मुख्य अभियन्ता (पारेषण नियोजन)
तृतीय तल, शक्ति भवन विस्तार,
14, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

पत्रांक : 813 पा०/पा०नि०/बारहवीं योजना/TWC

दिनांक : 19.11.2015

विषय : उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० द्वारा गठित "पारेषण कार्य अनुमोदन समिति" की दिनांक 16.11.15 को आहूत बारहवीं योजना की 25वीं बैठक का कार्यवृत्त।

- 1- श्री विशाल चौहान, प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० एवं अध्यक्ष, समिति।
- 2- श्री एस०के० अग्रवाल, निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० एवं सदस्य, समिति।
- 3- श्री शतांशु अग्रवाल, निदेशक (आपरेशन), उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, एवं सदस्य, समिति।
- 4- श्री अरुण प्रताप सिंह, निदेशक (कार्य एवं परियोजना), उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० एवं सदस्य, समिति।
- 5- मुख्य अभियन्ता (ऊर्जा प्रणाली), उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, एवं स्थायी आमन्त्री, पंचम तल शक्ति भवन, लखनऊ।
- 6- मुख्य अभियन्ता (पी०पी०एम०एम०), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० एवं स्थायी आमन्त्री, 7वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

"पारेषण कार्य अनुमोदन समिति" की बारहवीं योजना की दिनांक 16.11.15 को आहूत 25वीं बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है।

संलग्नक: यथोपरि।


(सुमन गुच्छ)

मुख्य अभियन्ता (पारेषण नियोजन)
एवं सदस्य संयोजक

प्रतिलिपि :-

- 1- मुख्य अभियन्ता (पारेषण पूर्व), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, 57 जार्ज टाउन, इलाहाबाद।
- 2- मुख्य अभियन्ता (पारेषण मध्य), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, अली मंजिल, फातिमा हास्पिटल के निकट, निशातगंज, लखनऊ।
- 3- मुख्य अभियन्ता (पारेषण पश्चिम), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, पारेषण भवन 130-डी, विक्टोरिया पार्क, मेरठ।
- 4- मुख्य अभियन्ता (पारेषण दक्षिण), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, निकट अमर उजाला प्रेस, ककरैथा रोड, आगरा।
- 5- मुख्य अभियन्ता 765 के०वी०, उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, 15वाँ तल शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
- 6- मुख्य अभियन्ता (जानपद पारेषण- I), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, 8/110 इन्दिरानगर, लखनऊ।
- 7- मुख्य अभियन्ता सी०एम०यू०(टी०), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, 11वाँ तल शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
- 8- मुख्य अभियन्ता (जानपद पारेषण- II), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, 9वाँ तल शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 9- मुख्य अभियन्ता (डी० एण्ड पी०), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, 10वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 10- उप मुख्य लेखाधिकारी (पारेषण मुख्यालय) वित्त एवं भुगतान इकाई, उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, प्रथम तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 11- इं० पंकज सक्सेना, अधिशासी अभियन्ता सम्बद्ध निदेशक (आपरेशन), के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

संलग्नक: यथोपरि।


(सुमन गुच्छ)
मुख्य अभियन्ता (पारेषण नियोजन)
एवं सदस्य संयोजक

कारपोरेशन द्वारा गठित "पारेषण कार्य अनुमोदन समिति" की दिनांक 16.11.2015 को सम्पन्न 12वीं योजनाकाल की 25वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित थे :-

- 1- श्री विशाल चौहान, प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०ट्रां०का०लि० एवं अध्यक्ष समिति।
- 2- श्री एस० के० अग्रवाल, निदेशक (वित्त) एवं सदस्य समिति।
- 3- श्री शतान्यु अग्रवाल, निदेशक (ऑपरेशन) एवं सदस्य समिति।
- 4- श्री अरूण प्रताप सिंह, निदेशक (कार्य एवं परियोजना) एवं सदस्य समिति।
- 5- श्री सुमन गुच्छ, मुख्य अभियन्ता (पारेषण नियोजन) एवं संयोजक सदस्य समिति।

निदेशक (ऑपरेशन) एवं वितरण क्षेत्रों से प्राप्त पारेषण कार्यों के प्रस्तावों पर, समिति ने सम्यक विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिये :-

(क) नये कार्य :-

(i) 220/132/33 के०वी०, 2x100, 2x40 एम०वी०ए० साढ़ (कानपुर) उपकेन्द्र का निर्माण कार्य :-

घाटमपुर (कानपुर) व आस-पास क्षेत्र का विद्युत भार 132 के०वी० घाटमपुर (कानपुर) उपकेन्द्र से पोषित है जो नौबस्ता (कानपुर) (220) उपकेन्द्र से रेडियल जुड़ा है। क्षेत्र में तेजी से हो रही भार वृद्धि, 132 के०वी० घाटमपुर एवं नौबस्ता 220/132 के०वी० उपकेन्द्रों पर पूर्ण भारिता के कारण नये 220/132/33 के०वी० उपकेन्द्र की आवश्यकता अनुभव की गई। क्षेत्र से प्राप्त सूचना एवं भूमि की भौतिक लोकेशन का आंकलन अनुसार प्रस्ताव निम्न प्रकार अनुमोदित किया गया :-

- 220/132/33 के०वी० 2x100, 2x40 एम०वी०ए० साढ़ (कानपुर) उपकेन्द्र का निर्माण (डबल मेन, ट्रांसफर)
- फतेहपुर (पी०जी०सी०आई०एल०) 765-साढ़(कानपुर) 220 के०वी० डी०सी० लाइन-60 किमी०
- नौबस्ता-बिन्दकी 132 के०वी० एस०सी० लाइन का लीलो-20 किमी०
- साढ़ (220)-घाटमपुर 132 के०वी० डी०सी० लाइन - 45.83 किमी०
- फतेहपुर(पी०जी०सी०आई०एल०) 765 उपकेन्द्र पर 220 के०वी० 'बे' - 2अद

(ii) 220/132/33 के०वी० 2x100, 2x40 एम०वी०ए० हाटा (कुशीनगर) उपकेन्द्र का निर्माण कार्य :-

कुशीनगर क्षेत्र में भार की निरन्तर वृद्धि, क्षेत्र के सम्बन्धित देवरिया (220), कसिया(132) उपकेन्द्रों पर अधिक भार, अन्य उपकेन्द्रों की सीमित क्षमता व लाइनों की अतिभारिता के दृष्टिगत नये 220/132/33 के०वी० उपकेन्द्र की आवश्यकता अनुभव की गई। उपकेन्द्र हेतु हाटा में पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। अतः समिति द्वारा निम्नानुसार निर्माण कार्य अनुमोदित किया गया :-

- 220/132/33 के०वी० 2x100, 2x40 एम०वी०ए० उपकेन्द्र हाटा का निर्माण (डबल मेन, ट्रांसफर)
- मोती राम अड्डा 400 के०वी० उपकेन्द्र (गोरखपुर) -हाटा 220 के०वी० डी०सी० लाइन -33 किमी०
- देवरिया (220)-हाटा 220 के०वी० डी०सी० लाइन - 43 किमी०
- हाटा (220) - कसिया 132 के०वी० डी०सी० लाइन - 25 किमी०
- मोती राम अड्डा 400 के०वी० उपकेन्द्र पर 220 के०वी० 'बे' का निर्माण - 4 अद

(iii) 220/132/33 के0वी0 2x160,2x40 एम0वी0ए0 सांगीपुर (प्रतापगढ़) उपकेन्द्र का निर्माण कार्य :-

प्रतापगढ़ (220) उपकेन्द्र की क्षमता सीमित होने व रायबरेली-इलाहाबाद के मध्य क्षेत्र में भार की सम्भावित वृद्धि के कारण सांगीपुर उपकेन्द्र का प्रस्ताव निम्नानुसार अनुमोदित किया गया :-

- 220/132/33 के0वी0 2x160, 2x40 एम0वी0ए0 सांगीपुर (प्रतापगढ़) उपकेन्द्र का निर्माण (डबल मेन, ट्रांसफर)
- सुल्तानपुर (220)-सांगीपुर 220 के0वी0 डी0सी0 लाइन-40 किमी0
- रायबरेली PGCIL (220)- सांगीपुर 220 के0वी0 डी0सी0 लाइन-60किमी0
- सांगीपुर (220)-कुण्डा 132 के0वी0 डी0सी0 लाइन - 40किमी0
- सांगीपुर (220) - लालगंज 132के0वी0 एस0सी0 लाइन - 40 किमी0
- सुल्तानपुर व रायबरेली PGCIL (220) उपकेन्द्रों पर 220 के0वी0 'बे' का निर्माण - 4 अद्द

(रायबरेली PGCIL (220) उपकेन्द्र से कनेक्टिवटी PGCIL से प्रतीक्षित अनुमति की प्रत्याशा में अनुमोदित की गई।)

(iv) 132/33 के0वी0 2x40 एम0वी0ए0 लालपुर (रामपुर) उपकेन्द्र का निर्माण कार्य :-

क्षेत्र से प्राप्त सूचनानुसार जनपद रामपुर में उद्योग एवं कृषि उद्योगों का निरन्तर विस्तार-विकास के कारण उनके लिए विद्युत आपूर्ति की निरन्तर शीघ्र भविष्य में माँग सम्भावित है, इसके फलस्वरूप जनपद में स्थापित प्राथमिक उपकेन्द्रों पर भार वृद्धि सम्भावित है। तदनुसार एक नये 132 के0वी0 उपकेन्द्र की आवश्यकता अनुभव की गई। लालपुर (रामपुर) स्थल पर उपकेन्द्र के निर्माण हेतु भूमि चिन्हित कर ली गयी है। समिति ने 132/33 के0वी0 लालपुर (रामपुर) उपकेन्द्र के निर्माण की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए निम्नानुसार निर्माण कार्य अनुमोदित किया :-

- 132 के0वी0 2x40 एम0वी0ए0 लालपुर (रामपुर) उपकेन्द्र का निर्माण (डबल मेन एवं ट्रांसफर)
- रामपुर - सी0बी0 गंज 132 के0वी0 एस0सी0 वर्तमान लाइन का लालपुर (रामपुर) उपकेन्द्र पर लीलो -35 किमी0

(v) 132/33 के0वी0, 2x40 एम0वी0ए0 बिन्दवाल जयराजपुर (आजमगढ़) उपकेन्द्र का निर्माण :-

पारेषण कार्य अनुमोदन समिति की दिनांक 09.07.2008 को सम्पन्न 11वें योजनाकाल की 7वीं बैठक में 132/33 के0वी0 उपकेन्द्र बिन्दवाल (आजमगढ़) निम्नानुसार अनुमोदित किया गया था :-

- 132/33 के0वी0 2x20 एम0वी0ए0 बिन्दवाल जयराजपुर (आजमगढ़) उपकेन्द्र का निर्माण
- आजमगढ़-कोयलसा 132 के0वी0 एस0सी0 लाइन का लीलो -12 किमी0

क्षेत्र से सूचनानुसार उपकेन्द्र हेतु भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। भविष्य में क्षेत्र में विद्युत भार वृद्धि सम्भावित है व नवीन चयनित भूमि के आधार पर क्षेत्र से प्रेषित निम्न प्रस्ताव अनुमोदित किया गया :-

- 132/33 के0वी0, 2x40 एम0वी0ए0 बिन्दवाल जयराजपुर(आजमगढ़) उपकेन्द्र का निर्माण (डबल मेन, ट्रांसफर)
- आजमगढ़ (220)-बिन्दवाल जयराजपुर 132 के0वी0 डी0सी0 लाइन-20 किमी0

-आजमगढ़ - मुबारकपुर 132 के0वी0 एस0सी0 लाइन का बिन्दवाल उपकेन्द्र पर लीलो-13 किमी0 (केवल स्ट्रिंगिंग कार्य से)

- आजमगढ़ (220) उपकेन्द्र पर 132 के0वी0 'बे' का निर्माण - 1 अद्द

(vi) 132/33 के0वी0 2x40 एम0वी0ए0 जलालाबाद (शाहजहाँपुर) उपकेन्द्र का निर्माण :-

समिति की दिनांक 21.11.2011 को 11वीं योजनाकाल की 33वीं बैठक में जलालाबाद (शाहजहाँपुर) उपकेन्द्र निम्नानुसार अनुमोदित किया गया था :-

-132/33 के0वी0 2x20 एम0वी0ए0 जलालाबाद (शाहजहाँपुर) उपकेन्द्र का निर्माण

-शाहजहाँपुर (220)-उसावाँ 132 के0वी0 एस0सी0 लाइन का लीलो-18 किमी0

उपकेन्द्र हेतु प्रशासन द्वारा ग्राम समाज की भूमि माह 04/2015 में ही उपलब्ध कराई जा सकी व उपकेन्द्र का निर्माण ससमय प्रारम्भ नहीं हो सका। वर्तमान में जलालाबाद क्षेत्र में भार की स्थिति में परिवर्तन आया है। शाहजहाँपुर-उसावा 132 के0वी0 लाइन का तिलहर निर्माणाधीन उपकेन्द्र पर लीलो उपरान्त एस0सी0 लाइन से प्रत्येक अवस्था में न्यूनतम दो अद्द 132 के0वी0 उपकेन्द्रों को पोषित किया जाना तकनीकी दृष्टिकोण से उचित नहीं है व विकल्पों पर विचार किया गया। वर्तमान में 132 के0वी0 उपकेन्द्र शाहजहाँपुर से मै0 कृभको के लिए डी0सी0 टावर पर 132 के0वी0 सिंगल सर्किट लाइन निर्मित है। इसकी रिक्त आर्म पर स्ट्रिंगिंग करके तथा शेष 132 के0वी0 डी0सी0 नई लाइन निर्माण कर जलालाबाद उपकेन्द्र को पोषित करना क्षेत्र से प्रस्तावित है। वर्तमान लाइन के उपयोग हेतु मै0 कृभको द्वारा लाइन के मूल्य को शेर कर उपयोग हेतु सहमति प्रदान कर दी गई है। जलालाबाद उपकेन्द्र को पोषित करने के लिए 132 के0वी0 जलालाबाद उपकेन्द्र के पुनरीक्षित प्रस्ताव को समिति ने निम्नानुसार अनुमोदित किया :-

- 132/33 के0वी0 2x40 एम0वी0ए0 जलालाबाद (शाहजहाँपुर) उपकेन्द्र का निर्माण (डबल मेन एवं ट्रांसफर)

- शाहजहाँपुर(132)- कृभको तक डी0सी0 डी0सी0 टावर पर द्वितीय सर्किट की स्ट्रिंगिंग-14.725 किमी0 (स्ट्रिंगिंग से अतिरिक्त सर्किट कृभको पर टर्मिनेट नहीं होगा)

- कृभको-जलालाबाद तक 132 के0वी0 डी0सी0 लाइन-25.275 किमी0

- शाहजहाँपुर 132 के0वी0 उपकेन्द्र पर 132 के0वी0 'बे' का निर्माण - 1 अद्द

(vii) 132/33 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र डुमरियागंज (सिद्धार्थनगर) पर 2 अद्द 132 के0वी0 'बे' का निर्माण कार्य :-

132 के0वी0 उतरौला-डुमरियागंज एस0 सी0 लाइन निर्माणाधीन है व कार्य शीघ्र पूर्ण होने की सम्भावना है। परन्तु 132 के0वी0 उपकेन्द्र डुमरियागंज छोर पर 132 के0वी0 'बे' उपलब्ध न होने के कारण लाइन जोड़ी नहीं जा सकती है व तदनुसार 132 के0वी0 'बे' अनुमोदन का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में 132 के0वी0 बस्ती-डुमरियागंज एस0सी0 लाइन वर्तमान में रेडियल जुड़ी है परन्तु डुमरियागंज उपकेन्द्र छोर पर 'बे' नहीं है व इस लाइन के तकनीकी रूप से उचित ढंग से जोड़ने हेतु 'बे' का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। समिति ने निम्नवत् अनुमोदित किया :-

- डुमरियागंज उपकेन्द्र पर 132के0वी0 'बे' का निर्माण - 2 अद्द



(viii) 220 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र देवरिया पर 132 के0वी0 'बे' का निर्माण कार्य :-

11वें प्लान की दिनांक 27.08.08 को नवीं बैठक में समिति द्वारा 132/33 के0वी0 रूद्रपुर (देवरिया) एवं इसे देवरिया (220) उपकेन्द्र से 132 के0वी0 एस0सी0 लाइन से जोड़ने का निर्माण कार्य अनुमोदित किया गया परन्तु लाइन जोड़ने हेतु देवरिया (220) उपकेन्द्र पर 'बे' हेतु प्रस्ताव नहीं था। लाइन जोड़ने हेतु देवरिया (220) उपकेन्द्र पर एक अदद 132 के0वी0 'बे' की आवश्यकता होगी। अतः 220 के0वी0 देवरिया उपकेन्द्र पर 132 के0वी0 गैन्ट्री का विस्तार करके 132 के0वी0 'बे' का निर्माण समिति ने निम्नानुसार अनुमोदित किया :-

-देवरिया (220) उपकेन्द्र पर 132 के0वी0 'बे' का निर्माण - 1 अदद

(ix) 132/33 के0वी0 उपकेन्द्र खैर (अलीगढ़) पर 2 नग 132 के0वी0 'बे' का निर्माण कार्य:-

दिनांक: 29.08.2014 को पारेषण कार्य अनुमोदन समिति की 12वीं योजनाकाल की 14वीं बैठक में 132 के0वी0 गभाना (अलीगढ़) उपकेन्द्र एवं खैर -गभाना 132 के0वी0 डी0सी0 लाइन सहित निर्माण कार्य अनुमोदित किया गया था। डी0सी0 लाइन से पोषण हेतु 220 के0वी0 खैर उपकेन्द्र पर 2 नग 132 के0वी0 'बे' से निर्माण किया जाना आवश्यक है। अतः क्षेत्र से प्रस्ताव को समिति ने निम्नानुसार अनुमोदित किया :-

- खैर (अलीगढ़) 220 के0वी0 उपकेन्द्र पर 132 के0वी0 'बे' का निर्माण - 2 अदद

(ख) क्षमता वृद्धि संबंधी निम्न प्रस्तावों पर समिति द्वारा अनुमोदन किया गया :-

उपकेन्द्रों पर वर्तमान एवं निकट भविष्य में विद्युत भार वृद्धि तथा Contingency में उपकेन्द्र पर क्षमता की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से निम्न क्षमता वृद्धि अनुमोदित की गयी :-

(i) 132/33 के0वी0 एफ0सी0आई0 (गोरखपुर) उपकेन्द्र :-

132/33 के0वी0 एफ0सी0आई0 (गोरखपुर) उपकेन्द्र - 1x63+2x40 एम0वी0ए0 से
2x63+1x40 एम0वी0ए0

(132 के0वी0 एफ0सी0आई0 उपकेन्द्र के पोषण हेतु भरुआ 220 के0वी0 उपकेन्द्र से 132 के0वी0 डी0सी0 लाइन विद्यमान है।)

(ii) 220/132/33, 132/66 के0वी0 शाहजहाँपुर उपकेन्द्र :-

132/33 के0वी0 1x40 एम0वी0ए0 + 132/66 के0वी0, 1x20 एम0वी0ए0 से 132/33 के0वी0,
2x40 एम0वी0ए0 + 132/66 के0वी0, 1x20 एम0वी0ए0

- उपकेन्द्र पर 33 के0वी0 'बे' का निर्माण -4 अदद

(iii) 220/132 के0वी0 मझोला (मुरादाबाद) उपकेन्द्र :-

220/132 के0वी0 मझोला (मुरादाबाद) उपकेन्द्र - 1x200+1x160+1x100 एम0वी0ए0 से

1x200+2x160 एम0वी0ए0

(iv) 220/132 के0वी0 ललितपुर उपकेन्द्र :-

220/132 के0वी0 ललितपुर उपकेन्द्र - 2x100 एम0वी0ए0 से 1x100+1x160 एम0वी0ए0

(v) 132/33 के0वी0 डुमरियागंज (सिद्धार्थनगर) उपकेन्द्र :-

132/33 के0वी0 डुमरियागंज (सिद्धार्थनगर) उपकेन्द्र - 40+20 एम0वी0ए0 से 2x40 एम0वी0ए0

(vi) 132/33 के0वी0 कोयलसा (आजमगढ़) उपकेन्द्र :-

132/33 के0वी0 कोयलसा (आजमगढ़) उपकेन्द्र - 2x20 एम0वी0ए0 से 1x40+1x20 एम0वी0ए0

(vii) 220/132 के0वी0 साहूपुरी (सारनाथ) उपकेन्द्र :-

220/132 के0वी0 साहूपुरी उपकेन्द्र - 3x160 एम0वी0ए0 से 2x200+x160 एम0वी0ए0

(viii) 132/33 के0वी0 फरीदपुर (बरेली) उपकेन्द्र :-

132/33 के0वी0 फरीदपुर (बरेली) उपकेन्द्र- 2x20 एम0वी0ए0 से 2x40 एम0वी0ए0

(ग) पूर्व अनुमोदित कार्यों में संशोधन :-


समिति की दिनांक 30.09.2015 को 24वीं बैठक में 220/132/33 के0वी0 बछरावों उपकेन्द्र को 220 के0वी0 कनेक्टिविटी अनुमोदित है। नवीन प्रस्ताव अनुसार कनेक्टिविटी पुनरीक्षित कर निम्न प्रकार अनुमोदित की गयी :-

24वीं बैठक में अनुमोदित	संशोधन उपरान्त Connectivity अनुमोदित
अमावाँ (PGCIL) रायबरेली-चिनहट 220 के0वी0 एस0सी0 वर्तमान लाइन का लीलो-35 किमी0	अमावाँ (PGCIL) -सरोजनीनगर 220 के0वी0 एस0सी0 वर्तमान लाइन का लीलो-35 किमी0

(घ) समिति द्वारा निरस्त/स्थगित किये गये प्रस्ताव :-

(i) 132/33 के0वी0, 2x20 एम0वी0ए0 सहसवान (बदायूँ) उपकेन्द्र का निर्माण कार्य:-

क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में 132 के0वी0 लाइन पर एकल फीडर पर पोषित दो उपकेन्द्र तकनीकी रूप से उचित नहीं है। अतः अन्य स्रोत एवं लाइन क्षमता में वृद्धि सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार करने हेतु प्रस्ताव पुनर्विचार हेतु स्थगित किया गया।



- (ii) 220/132 के०वी० ललितपुर उपकेन्द्र पर 132/33 के०वी० 2x20 एम०वी०ए० क्षमता स्थापित करना ।
उपकेन्द्र के आस-पास क्षेत्र के भार आंकलन उपरान्त प्रस्ताव स्थगित किया गया ।

(सुमन गुच्छ)
मुख्य अभियन्ता (पारेषण नियोजन)
एवं संयोजक सदस्य

(शतांशु अग्रवाल)
निदेशक (आपरेशन)
एवं सदस्य

(विशाल चौहान)
प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०ट्रां०का०लि०
एवं अध्यक्ष

(एस०के० अग्रवाल)
निदेशक (वित्त)
एवं सदस्य

(अरुण प्रताप सिंह)
निदेशक (कार्य एवं परियोजना)
एवं सदस्य